



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 519 राँची, बुधवार

23 मई, 2018 (ई०)

---

#### गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

-----  
आदेश

18 मई, 2018 ई०

संख्या-13/एम2-1053/2003-2799/सी०,-- विभागीय अधिसूचना सं०-3839, दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16 (3) तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-25013/02/2005- AIS-II दिनांक 28 जून, 2012 के आलोक में राज्य के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की सेवा की गहन समीक्षा हेतु गठित रिव्यू कमिटी में सदस्य (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य) के रूप में श्री एल० खियांगते, भा०प्र०से०, तत्कालीन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को नामित किया गया था ।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा तथा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-2880, दिनांक 3 मई, 2018 द्वारा श्री एल० खियांगते, भा०प्र०से० को भा०प्र०से० के स्थिर वेतनमान में प्रोन्नति देते हुए प्रोन्नति के उपरांत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव,

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के पद को श्री खियांगते के पदस्थापन अवधि तक के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के रूप में उत्क्रमित किया गया है ।

3. अतः विभागीय अधिसूचना सं०-3839, दिनांक 13 जुलाई, 2017 के क्रम में रिव्यू कमिटी की बैठक हेतु श्री एल० खियांगते, भा०प्र०से० को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को रिव्यू कमिटी में सदस्य (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य) के रूप में नामित किया जाता है ।

ह०/-

**गणेश कुमार,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----